



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 सितम्बर, 2010/3 आश्विन, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 22-9-2010

संख्या: सिंचाई 11-43/2010-मण्डी.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बडोई/452, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र/हैक्टर
मण्डी	सरकाघाट	बड़ोई/452	142/1	0-04-29
			155/1	0-00-28
			156/1	0-00-54
			किता-3	0-05-11

आदेश द्वारा,
हस्ता०/-
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25-8-2010

संख्या: सिंचाई: 11-14/2010-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल रियाली व वेला लुधियाड़चां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-

अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा न०	क्षेत्र		
				क्षेत्र	हैक्टर	में
कांगड़ा	फतेहपुर	रियाली	1969/2	0	04	00
			1970/1	0	00	24
			1975/1	0	01	16
			2215/1	0	00	05
			2220	0	01	44
			2221/1	0	03	12
			2224/1	0	00	24
			2225	0	00	36
			2226/1	0	00	30
			2228/1	0	00	45
			2229/1	0	00	84
			2230/1	0	00	68
			2233/1	0	01	72
			2248/1	0	12	16
			Kittas-14	0	26	76
कांगड़ा	फतेहपुर	वेला लुधियाड़ा	1112/1	0	02	42
			1113/1	0	00	20
			1157/1	0	03	00
			1168/2	0	00	42
			1174/2	0	01	64
			1175/2	0	01	26
			1178/1	0	00	14
			Kittas-7	0	09	08

आदेश द्वारा,
हस्ता०/—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 24 सितम्बर, 2010

संख्या: 5-13/2008-ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: 5-19/86-ई.एल.एन., तारीख 18-12-1998 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (पंचम संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-“क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध-“क” में :—

स्तम्भ संख्या-4 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“पे बैंड : 10300-34800/-रुपए जमा 3800/- रुपए ग्रेड पे”

आदेश द्वारा,
हस्ता०/—
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-13/2008-ELN, dated 24-9-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 24th September, 2010

No. 5-13/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified vide Notification No.5-19/86-ELN, dated 18-12-1998, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Fifth Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998;-

For the existing provisions against column No.4, the following shall be substituted, namely:-

“Pay Band: Rs.10300-34800/- plus 3800/- Grade Pay”

By order,
Sd/-
Secretary (Elections).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 24 सितम्बर, 2010

संख्या: 5-37/2000-ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: 5-37/2000-ई.एल.एन., तारीख 9 अक्टूबर, 2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-“क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध “क” में :-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पे बैंड : **10300-34800/-**रुपए जमा **5000/** रुपए ग्रेड पे”

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-37/2006 ELN, dated 24-9-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

Shimla-171009, the 24th September, 2010

NOTIFICATION

No. 5-37/2000-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh

Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No.5-37/2000-ELN, dated 9-10-2007, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—(1) In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007;-

For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-

“Pay Band: Rs.10300-34800/- plus 5000/- Grade Pay”

By order,
Sd/-
Secretary (Elections).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 25 सितम्बर, 2010

संख्या: 5-23/2008-ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: 5-23/2008-ईएलएन, तारीख 16 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध “क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध “क” में :-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“10300-34800/- रुपए जमा 5000/-रुपए ग्रेड पे”

आदेश द्वारा,
हस्ता0/-
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-23/2008 ELN, dated 25-9-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 25th September, 2010

No. 5-23/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009, notified vide Notification No.5-23/2008-ELN, dated 16-3-2009, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—(1) In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009;—

For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:—

“Rs. 10300-34800/- plus 5000/- Grade Pay”

By order,
Sd/-
Secretary (Elections).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 25 सितम्बर, 2010

संख्या 5-9/97-ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या 5-9/97-ईएलएन., तारीख 24 फरवरी, 1999 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध “क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 के उपाबन्ध—“क” में :-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“10300-34800/- रुपए जमा 5400/- रुपए ग्रेड पे”

आदेश से,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-9/97-ELN, dated 25-9-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 25th September, 2010

No. 5-9/97-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Electoral Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1999, notified vide Notification No. 5-9/97-ELN, dated 24-2-1999 namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Electoral Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Electoral Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1999 :-

For the existing provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

“Rs.10300-34800/- plus 5400/- Grade Pay”

By order,
Sd/-
Secretary (Elections).

निर्वाचन विभाग

ब्लॉक नम्बर-38, एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला, 23 सितम्बर, 2010

संख्या 5-21/97-ई.एल.एन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के निर्वाचन कानूनगो संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों की नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-II (राजपत्रित) के पद पर संशोधित वेतन संरचना (Revised pay structure) 10300-34800/- रूपए जमा 4200/-रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देते हैं:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम व वर्तमान पदस्थापना स्थान
1.	श्री संजय कौल	निर्वाचन कानूनगो, उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला।
2.	श्री उपेन्द्र नाथ शुक्ला	निर्वाचन कानूनगो, उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, ऊना।
3.	श्री राजेन्द्र कुमार-I	निर्वाचन कानूनगो, उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, अर्की।
4.	श्रीमती ऊषा चौहान	निर्वाचन कानूनगो, उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, शिमला (ग्रामीण)।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल ऊपरवर्णित अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना के भी निम्न प्रकार से सहर्ष आदेश देती हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना का स्थान
1.	श्री संजय कौल	जिला निर्वाचन कार्यालय, हमीरपुर। (नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत)
2.	श्री उपेन्द्र नाथ शुक्ला	जिला निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला। (नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत)
3.	श्री राजेन्द्र कुमार-I	जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला। (नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत)
4.	श्रीमती ऊषा चौहान	जिला निर्वाचन कार्यालय, बिलासपुर। (नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत)

उपरोक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

यदि उपरोक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि प्रोद्भूत (accrue) करने के पश्चात् वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में उन्हें नायब तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (निर्वाचन)।

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 सितम्बर, 2010

संख्या आयु0-क(3)-2/98-VI.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 17-2-2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध— “क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आयुर्वेद) विभाग, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध—“क” में: —

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

(i) **नियमित पदधारियों के लिए वेतन.**—10,300—34,800 रूपए जमा 5,000 रूपए ग्रेड पे।

(ii) **संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.**—“स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।”

(ख) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां निचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधधीन की जाएगी:-

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.**—प्रधान सचिव (आयुर्वेद)/सचिव (आयुर्वेद) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.**—निदेशक, आयुर्वेद रिक्त पदों को वैचवार संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के

पश्चात्, नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के निबन्धनों के अनुसार अध्यपेक्षा को प्रदेश में नियोजनालयों के समक्ष रखेगा और रिक्त पदों के ब्यौरे दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथा विहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को 15,300/— रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460/—रूपये की रकम (पद के पे-बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जायेगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव (आयुर्वेद)/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—(क) विभागीय स्तर पर बैचवार आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया बैचवार आधार पर भर्ती के लिए अपनाई जायेगी:—

1. नियोजनालयों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों की चयन समिति जांच करेगी।

(i) अभ्यर्थी का नाम, वंश और पता।

(ii) जन्म तिथि और यह कि अभ्यर्थी विहित आयु सीमा के भीतर आता है।

(iii) क्या संस्था तथा अभ्यर्थी की उपाधि सी.सी.आई.एम./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(iv) क्या अभ्यर्थी ने नियमों के अधीन अपेक्षित इंटर्नशिप पूर्ण कर ली है।

(v) हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपाल्य/स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रित इत्यादि होने का प्रमाण।

(vi) अभ्यर्थियों की अंकतालिका।

(vii) उच्चतर अर्हता का प्रमाण—पत्र, यदि कोई हो; और

(viii) अभ्यर्थी, प्रत्येक प्रवर्ग में बैच तक, बैचवार आधार पर उस प्रवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार भर्ती किए जाएंगे। यदि किसी विशिष्ट बैच के सभी अभ्यर्थियों को समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को पहले लिया जायेगा।

2. बैचवार आधार पर भर्ती जिसमें चयन स्तर पर गुणागुण का अवधारण अन्तर्बलित नहीं होगा का चयन, विभागीय स्तर पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समित.—(विभागीय स्तर पर भरे जाने वाले पदों के लिए) “जैसी सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।”

(प्राधिकृत भर्ती अभिकरण द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए) “जैसी सक्षम प्राधिकारण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।”

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से सलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/— रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 460/—रुपए (पद के पे-बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधए, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान और निषेध भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आक्समिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्याथियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परिक्षण किया जायेगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.—एस.आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

उपाबन्ध—“ख” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 2009 से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यावसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु और आगे विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जायेगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) जोनल अस्पताल, शिमला से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) जोनल अस्पताल, शिमला से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी की नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक योजना के साथ—साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
10. किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रैक्टिस प्रतिषिद्ध है। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.
 नाम
 पता

2.
 नाम
 पता

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.
 नाम
 पता

2.
 नाम
 पता

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

आदेश द्वारा,
 हस्ताक्षरित /—
 प्रधान सचिव।

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-2/98-VI dated 20th September, 2010 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20 September, 2010

No. Ayu-A(3)-2/98-VI.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh, Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Recruitment & Promotion Rules for the post of Ayurvedic Medical Officer (Class-I Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh vide notification of even No. dated 17.02.2009, namely:-

1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the HP Department of Ayurveda, Ayurvedic Medical Officers, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure “A”.—In annexure “A” to the HP Department of Indian System of Medicine (Ayurveda) Recruitment & Promotion Rules, 2009:-

- (a) For the existing provisions against Column No.-4 the following shall be substituted, namely:-
 - (i) **Pay for regular incumbents.**—Rs. 10,300-34,800 + 5,000 grade pay
 - (ii) **Emoluments for Contract employees.**—As per details given in Col. 15-A
- (b) For the existing provisions against Column No. 15-A the following shall be substituted, namely:-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

- (I) **CONCEPT.**—(a) Under this policy, Ayurvedic Medical Officers in the Department of Ayurveda will be engaged on contract basis initially for one year, which may extendable for two more years on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

- (b) **Posts falling within the purview of HPPSC.**—The Principal Secretary (Ayurveda)/Secretary (Ayurveda) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
- (c) **Posts falling out of the purview of HPPSC.**—The Director of Ayurveda after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on batch wise basis on contract basis will place the requisition with the employment exchanges in the Pradesh in terms of Employment Exchange (Compulsory Notification of vacancies) Act, 1959 and also advertise the details of the vacant posts in two leading newspapers and invite applications from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.
- (d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Ayurvedic Medical Officers appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month {which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay}. An amount of Rs. 460/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Ayurveda)/Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—(a) For the post to be filled up at Departmental level on batch wise basis: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment, the following procedure will be adopted for recruitment on batch wise basis:-

1. A selection committee will screen the candidates sponsored by the Employment Exchanges.

- (i) Name, parentage and address of the candidate.
- (ii) Date of birth and that the candidate falls within the prescribed age limits;
- (iii) Whether the institution and the degree of the candidate are recognized by the CCIM/Govt. of India.
- (iv) Whether the candidate has completed internship required under the rules;
- (v) Proof of bonafied resident of HP, SC/ST/ward of Ex-Servicemen/ward of freedom fighter etc;
- (vi) Marks list of the candidates;
- (vii) Certificate of higher qualification, if any; and
- (viii) The candidates will be recruited on batch wise basis in each category upto the batch as per number of vacancies available in that category. If all the candidates in a particular batch cannot be accommodated, the candidate senior in age will be taken first.

2 Since the recruitment on batch wise basis which will not involve determination of merit at the selection stage, the selection is proposed to be conducted departmentally.

(b) For the posts to be filled up through the concerned recruiting agency: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—
(For the posts to be filled up at Departmental level) “As may be constituted by the competent authority i.e. Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh from time to time.”

(For the posts to be filled up by the authorized recruiting agency) “As may be constituted by the competent authority i.e. HPPSC from time to time.”

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month {which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay}. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 460/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales and NPA etc. will be given.

- (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government authorized/registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from Government authorized/registered Medical Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular Ayurvedic Medical Officer at the minimum of the Pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments as detailed in this column.

Amendment in Annexure “B”.—In annexure “A” HP Department of Ayurveda Recruitment & Promotion Rules, 2009 following shall be substituted, namely:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Ayurvedic Medical Officer for a period of one year commencing on the _____ day of _____ and ending on _____ day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with the SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _____ per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Ayurvedic Medical Officer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave

of any kind is admissible to the contractual Ayurvedic Medical Officer. He will not be entitled for any kind of Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Ayurvedic Medical Officer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla. In case of women candidates pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Private practice of any kind, whatsoever is prohibited.

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
Name _____
Address _____
2. _____
Name _____
Address _____

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
Name _____
Address _____
2. _____
Name _____
Address _____

Signature of the SECOND PARTY)

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 24th September, 2010*

No. FDS-B(15)-3/2006-I.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote Sh. Roop Ram Food and Supplies Officer and Smt. Savita Sharma Suptd. Grade-II to the post of District Controller Food, Civil Supplies & Consumer Affairs (Class-I, Gazetted) in the pay scale of Rs. 10300-34800+5000 GP in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh with immediate effect.

2. The above-mentioned officers will remain on probation for a period of two years from the date of joining.

3. The above mentioned officers shall be entitled to exercise their option for fixation of pay under the provision of FR-22 within one month from the date joining.

4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post the above Officers on promotion as Distt. Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, in the following Districts as shown against their names:-

<u>Name of Officers</u>	<u>Place of Posting</u>
1. Sh Roop Ram	Kangra at Dharamshala
2. Smt. Savita Sharma	Chamba

By order,
PREM KUMAR,
Pr. Secretary (FCS&CA).

